

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ने ब्रैम्पटन और टोरोंटो पियर्सन इंटरनैशनल एयरपोर्ट के बीच नए जूम ट्रांज़िट कनेक्शन की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (3 मार्च, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को ब्रैम्पटन से टोरोंटो पियर्सन इंटरनैशनल एयरपोर्ट (Toronto Pearson International Airport) तक नए सीधे बस रैपिड ट्रांज़िट कनेक्शन की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। 505 जूम बोवेअर्ड (505 Zum Bovaird) रूट को एयरपोर्ट तक बढ़ाया जाएगा। इसके 2020 के पतझड़ के शुरू में चालू होने की संभावना है।

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने इसके 2020 के बजट (2020 Budget) के हिस्से के तौर पर सर्वसम्मति से मंजूरी दी। यह विस्तार टोरोंटो पियर्सन में काम करने वाले या यहां से सफर करने वाले निवासियों के लिए अधिक सुविधा पेश करते हुए, रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। यह इनोवेशन कोरिडोर (Innovation Corridor) के साथ ब्रैम्पटन के संबंधों को भी और मज़बूत बनाएगा।

पियर्सन एयरपोर्ट काम करने के लिए बड़ा और कॉम्प्लैक्स स्थान है, जहां 400 से अधिक कंपनियां हैं, जिनमें लगभग 50,000 लोग काम करते हैं; जिनमें से 10,000 ब्रैम्पटन में रहते हैं। पियर्सन, एयरपोर्ट इम्प्लॉयमेंट ज़ोन (Airport Employment Zone) को सहारा देता है, जिसमें ब्रैम्पटन, मिसिसागा (Mississauga) और एटोबीको (Etobicoke) के क्षेत्र शामिल हैं। यह 300,000 से अधिक नौकरियों के साथ कैंनेडा का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है।

ग्रेटर टोरोंटो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (जी.टी.ए.ए.) (Greater Toronto Airports Authority) (GTAA) नए रूट का स्वागत करती है। जैसा कि रिसर्च में दर्शाया गया है कि ब्रैम्पटन और एयरपोर्ट के बीच सीधे बस कनेक्शन्स में सुधार करने के खास लाभ हैं। 505 जूम बोवेअर्ड विस्तार के साथ, ब्रैम्पटन में रहने वाले एयरपोर्ट के उन कर्मचारियों की संख्या दुगुनी हो सकती है, जो पब्लिक ट्रांज़िट पर सफर करते हैं।

टोरोंटो पियर्सन में, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट पर सफर करने वाले लोग अन्य रीजनल यातायात नेटवर्कों के साथ जुड़ सकते हैं। इनमें शामिल हैं, यू.पी. एक्सप्रेस (UP Express), छह टी.टी.सी. (TTC) रूट्स, चार माईवे (MiWay) रूट्स, दो गो ट्रांज़िट (GO Transit) रूट्स और अन्य रीजनल सेवाएं, जैसे ग्रेहाउंड (Greyhound)।

संक्षेप तथ्य

- 2020 के बजट में सिटी के ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 1 प्रतिशत लगाया हुआ टैक्स शामिल किया गया है।
- रूट 505 जूम बोवेअर्ड के विस्तार का खर्च \$1.75 मिलियन आएगा - \$900,000 का फंड सिटी द्वारा दिया जाएगा और बाकी रकम राजस्व से आएगी।
- इस समय, टोरोंटो पियर्सन इंटरनैशनल एयरपोर्ट में काम करने वाले 10,000 निवासियों में से 13 प्रतिशत काम पर आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांज़िट पर सफर करते हैं।

हवाले

“इनोवेशन के कोरिडोर और एयरपोर्ट के कार्यबल में सबसे बड़े योगदानी होने के तौर पर, हमारे रीजन की आर्थिक वृद्धि को सहयोग देने और नौकरी संबंधी अवसरों तक ब्रैम्पटन के निवासियों की पहुंच को आसान बनाने के लिए हमें खुशी है। हम 2020 के बजट ने इसमें महत्वपूर्ण निवेश किया है, जो समुदाय को सबसे पहले प्राथमिकता देता है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“आज की घोषणा से यात्रियों और कर्मचारियों दोनों को ब्रैम्पटन से टोरोंटो पियर्सन तक अधिक आसानी से पहुंच प्राप्त होगी। दुनिया की तीन-चौथाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ लोगों और कारोबारियों को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए, हमें मज़बूत स्थानीय ज़मीनी संबंधों की जरूरत है। यह सेवा, एयरपोर्ट तक और दुनिया तक ब्रैम्पटन की पहुंच को मज़बूत बनाती है।”

- स्कॉट कोलियर (Scott Collier), वाइस प्रेजिडेंट, कस्टमर एंड टर्मिनल सर्विसिज, जी.टी.ए.ए.

“मंज़ूर किए 2020 के बजट में इस ट्रांज़िट विस्तार जैसे कार्यनीति संबंधी निवेश शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए काउंसिल की प्रायोरिटीज के अनुरूप हैं कि ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है। बजट यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे निवासियों के लिए अच्छी किस्म की ट्रांज़िट सेवाएं प्रदान करने में वृद्धि करता है कि निवासी रोजगार अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और इम्प्लॉयर ब्रैम्पटन की प्रतिभा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca